 KRISHANA PHOSCHEM LIMITED 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.) INDIA Website: www.krishnaphoschem.com Email: secretarial@krishnaphoschem.com; CIN: L24124RJ2004PLC019288 Extract of Unaudited Financial Results For the Quarter Ended 30th June 2023 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]					
S. No.	Particulars	Quarter ended		Year Ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income From Operation	16,632.35	14,645.18	6,718.33	32,570.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,776.99	1,420.89	730.89	3,893.86
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,776.99	1,420.89	730.89	3,893.86
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,188.11	623.00	609.82	2,673.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,188.11	616.65	609.82	2,667.25
6	Equity Share Capital	3,091.38	3,091.38	2,963.88	3,091.38
7	Other Equity (Reserves)				23,089.80
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)				
	1. Basic	3.84	2.02	2.06	8.80
	2. Diluted	3.84	2.02	2.04	8.65

Note :


a) The Unaudited financial results of the company for the quarter ended June 30th, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on 10th August, 2023. The same have been subjected to limited review by the Statutory Auditors.

b) The above financial results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('IND AS') as prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.

c) The above is an extract of the detailed financial results for the quarter ended 30th June, 2023 filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.nseindia.com and Company's websites www.krishnaphoschem.com.

By order of the Board
For Krishana Phoschem Limited
(Sunil Kothari)
Whole Time Director
DIN : 02056569

Date:- 10th August, 2023
Place:- Bhilwara

 SARLA PERFORMANCE FIBERS LIMITED CIN : L31909DN1993PLC000056 Regd. Office :- Survey No. 59/1/4, Amla Piparia Industrial Estate, Silvassa - 396 230 (U.T. of Dadra & Nagar Haveli) Tel. : 0260-3290467, Fax : 0260-2631356, E-mail : investors@sarlafibers.com, Website : www.sarlafibers.com Extract of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter ended June 30, 2023 (₹ in lakhs)									
Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	8,508.98	6,980.11	11,819.80	38,654.70	8,530.73	6,978.21	11,851.61	38,740.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1,150.86	513.94	1,493.28	3,966.27	919.63	212.88	1,344.04	3,227.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,150.86	513.94	1,493.28	3,966.27	919.63	212.88	1,344.04	3,227.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	861.22	308.51	1,112.79	2,881.18	629.99	2.95	963.55	2,138.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	868.21	337.68	1,112.38	2,909.15	633.79	(20.51)	948.72	2,321.22
6	Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- each)	835.03	835.03	835.03	835.03	835.03	835.03	835.03	835.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	42,262.23	-	-	-	38,656.52
8	Earning per share (of Re.1/- each) (not annualised) Basic and Diluted	1.03	0.37	1.33	3.45	0.76	0.02	1.15	2.56

Note :


1. The above Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 10, 2023. The Statutory Auditors have carried out a limited review of these results.


2. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE: <https://www.bseindia.com> and NSE: <https://www.nseindia.com>) and the website of Sarla Performance Fibers Limited (<https://www.sarlafibers.com>).


3. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For Sarla Performance Fibers Limited
Sd/-
Krishna M. Jhunjhunwala
Managing Director
DIN: 00097175

Place : Mumbai
Date : August 10, 2023

 KAKATIYA CEMENT SUGAR & INDUSTRIES LIMITED 1-10-140/1, 'GURUKRUPA', Ashok Nagar, Hyderabad-500020. CIN: L26942TG1979PLC002485 Website : www.kakatiyacem.com	
NOTICE TO SHAREHOLDERS	
Sub : Transfer of dividend and shares to IEPF Authority	
Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 the unclaimed dividend for the year ended 31 st March, 2016 which remained unclaimed for a period of seven years is due for transfer to IEPF and the corresponding shares if any on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in Rules.	
The company has sent individual notices to the concerned shareholders and the details of such shares to be transferred to IEPF are also made available on the website of the company at www.kakatiyacem.com , to verify the details of their unclaimed dividend and the shares liable to be transferred. Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year ended 31 st March, 2016 and for subsequent years immediately before the same is transferred IEPF.	
In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 23.09.2023 the company shall transfer the shares to IEPF as per the due date in terms of procedures set out in the Rules without any further notice.	
Those shareholders who hold shares in physical form are requested to communicate their Mobile No, Bank account number, name of the Bank, Branch, IFSC Code, PAN, Aadhar, e-mail ID and address by submitting duly executed forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, ISR-4 and SH-13/SH-14 along with its enclosures (which can be downloaded from RTA's website www.xisoftech.com) to: xfid@gmail.com to facilitate payment of dividend. Members holding Accounts in Banks in which merger has taken place are requested to check and mention the correct IFSC code of the bank consequent to merger.	
Please note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. The shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from IEPF Authority upon due compliance of the procedures.	
For any clarification in this regard, the concerned members may write to the company or to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address stated herein below:- Registrar and Share Transfer Agent (RTA) XL Softech Systems Limited (Unit: Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited) 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Phone: 040 23545913/14/15 Email: xfid@gmail.com For Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited Sd/- V Seshasayee Company Secretary	
Place: Hyderabad	Date : 10.08.2023

 COMPUCOM SOFTWARE LIMITED IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) India CIN: L72200RJ1995PLC009798 Software Limited Tel. 91-141-2770131 • Fax: 91-141-2770335 Email: investor@compucom.co.in • Website: www.compucom.co.in	
29th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCING OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS	
Notice is hereby given that the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 20, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and General Circular No 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 dated 13.04.2020, 20/2020 dated 05.05.2020, 02/2021 dated 13.1.2021, 19/2021 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 05.05.2022 and 10/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/PI/2020/79 dated 12.05.2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/PI/2021/11 dated 15.01.2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/PI/2022/62, dated 13.05.2022 and SEBI/HO/CFD/PI/2023/4, dated 05.01.2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (all circulars hereinafter collectively referred to as "Circulars"). Members can attend and participate in the 29th AGM through VC/OAVM only and those who are attending will be counted for purpose of reckoning quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. Hence, there is no requirement for physical presence of members at a common venue.	
In Compliance with the aforementioned Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the F.Y. 2022-23 will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail id is already registered with the Company/Depository Participant(s). Notice and the said documents will also be available at the company's website at www.compucom.co.in and website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com and Calcutta Stock Exchange Limited at www.cse-india.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com . The voting rights on the resolutions as set out in the Notice of 29th AGM will be in proportion to shares held by the members of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date i.e. September 13, 2023. The Company has arranged to provide remote e-voting facility and the facility of voting through e-voting system during the AGM to all its members holding shares as on the Cut-off date for all the resolutions set forth in the Notice. The detailed procedure in this regard will be available in the Notice. The login details for casting votes through electronic means and for attending meetings through VC/OAVM will be sent through email to those members who have registered their email address.	
Please note that Members who have not registered their e-mail addresses shall not be able to receive Annual Report and the Notice of 29th AGM and login details to participate in the Meeting or vote through electronic means. We are confirming that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report of the company will be sent to all the Shareholders who will register their email address upto August 25, 2023.	
Hence the Company requests all the members who have not yet registered or updated their email addresses to register the same upto August 25, 2023, by following the below instructions:-	
1. Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited, Unit: Compucom Software Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, India at admin@mcsregistrars.com providing Folio number, Name of the Shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email addresses.	
Please send your bank details with the original cancelled cheque to our RTA to the above-mentioned address along with a letter mentioning Folio No. if not registered already for dividend payment by NACH if declared by Company.	
2. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address as per the process advised by DP. Please also update your Bank Detail with your DP for dividend payment by NACH, if declared by Company.	
In case of any queries about the registration process of email address, the members may send an email to investor@compucom.co.in.	
For Compucom Software Limited Sd/- (Swati Jain) Company Secretary & Compliance Officer FCS: 8728	
Place: Jaipur	Date: 10.08.2023

 TOTAL TRANSPORT SYSTEMS LIMITED Member of the C.P. World Group Corporate Identification Number: L63090MH1995PLC091063 Registered Office: 7th floor, T Square, Opp. Chandvili Petrol Pump, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai 400 072, Maharashtra, INDIA Telephone: +91-22-66441500 Fax No: +91-22-66441585 E-mail: info@ttspl.in Website: www.ttspl.in									
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 (₹ In Lakhs)									
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended on		Year Ended		Quarter Ended on		Year Ended	
		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31st March 2023	30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31st March 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	Total Income from Operations	9,395.32	9,479.02	16,234.03	52,221.82	11,378.02	11,315.53	17,568.59	59,027.22
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	279.94	331.25	511.36	1,775.83	198.51	6.11	397.71	984.82
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	279.94	331.25	511.36	1,775.83	198.51	6.11	397.71	984.82
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	213.03	243.81	377.64	1,319.54	131.87	-85.39	365.76	524.01
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	213.05	183.88	377.60	1,260.23	131.89	-144.82	365.88	465.20
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- per Equity Share)	1,612.70	1,326.83	1,430.60	1,326.83	1,612.70	1,326.83	1,430.60	1,326.83
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	7,690.56	-	-	-	6,119.00
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)								
	1. Basic	1.32	1.39	2.64	9.50	0.82	-0.67	1.86	3.94
	2. Diluted:	1.32	1.39	2.64	9.50	0.82	-0.67	1.86	3.94

Notes:-

1. The above Unaudited results, which have been subjected to Limited review report by the statutory Auditors of the Company are published in accordance with regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, have been reviewed by the audit committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held through Video Conferencing on 10th August 2023. The financials results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules and other accounting standards generally accepted in India.

2. The above financial results is an extract of the detailed format of the financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 the full format are available on the website of the Company i.e. www.ttspl.in under investor tab and on the website of national stock exchange i.e. www.nseindia.com.

For Total Transport Systems Limited
Sd/-
Shrikant Nibandhe
CFO & Director
DIN: 01029115

Date: 10th August, 2023
Place: Mumbai

 Varishtha Property Developers Private Limited Corporate Identification Number: U45208TG2015PTC101839 Registered Office: Puravankara Projects Limited, Survey No. 8, Opp. Mahindra Satyam, Sideline of Godrej Green Bldg Kondapur Hyderabad TG 500033, India Email: investors@puravankara.com Website: http://www.puravankara.com/varishtha					
Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 (Rs. Lakhs)					
Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding	Year ended	
		30.06.2023	Quarter ended	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	-	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.20)	(0.08)	(13.89)	-
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.20)	(0.08)	(13.89)	-
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.20)	(0.08)	(13.89)	-
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.20)	(0.08)	(13.89)	-
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00	-
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Securities Premium a/c)	-	-	-	-
8	Securities Premium Account	-	-	-	-
9	Net worth	(14.60)	(0.002)	(14.40)	-
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,421.01	-	-	-
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	(77.88)	-	-	-
13	Earnings per equity share of Rs. 100 each (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-
	1 Basic	(20.00)	(8.00)	(1,389.00)	-
	2 Diluted	(20.00)	(8.00)	(1,389.00)	-
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
15	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	(0.01)	-	-	-
17	Interest Service Coverage Ratio	(0.01)	-	-	-


Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and of the listed entity.

2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL www.bseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors of
Varishtha Property Developers Private Limited
Sd/-
Name: Patil D S
Designation: Director
DIN: 01599400

Place: Bengaluru, India
Date: August 10, 2023

 PROVIDENT CEDAR PRIVATE LIMITED Corporate Identification Number: U45309KA2016PTC097552 Registered Office: No.130/2, Ulsoor Road, Bengaluru-560 042, India Email: investors@puravankara.com Website: http://www.puravankara.com/cedar					
Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 (Rs. Lakhs)					
Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding	Year ended	
		30.06.2023	Quarter ended	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	-	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	0.68	(0.01)	(22.93)	-
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.68	(0.01)	(22.93)	-
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.68	(0.01)	(22.93)	-
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.68	(0.01)	(22.93)	-
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00	-
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Securities Premium a/c)	-	-	-	-
8	Securities Premium Account	-	-	-	-
9	Net worth	(22.25)	(0.002)	(22.92)	-
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	4,155.22	-	3,947.89	-
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	(187.09)	-	(172.48)	-
13	Earnings per equity share of Rs. 100 each (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-
	1 Basic	67.59	(1.00)	(2,293.00)	-
	2 Diluted	67.59	(1.00)	(2,293.00)	-
14	Capital Redemption Reserve	-			

कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के चार वर्ष आर्थिक विकास के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक विश्वास बढ़ा

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कोई भी सरकार यह साहस नहीं जुटा सकती कि उसे देश के अन्य राज्यों के समान दर्जा देकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा सके। सरकारों अभिन्न अंग तो बताती रही, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देकर उसके विकास में बाधक भी बनती रही। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए जाने के चार वर्ष पूरे हो गए हैं। यह वह धारा है, जिसके माध्यम से वहां का शासक वर्ग तो मालामाल होता गया, लेकिन जनता की सुध किसी ने नहीं ली। धरती का स्वर्ण कहा जाने वाला कश्मीर पर्यटकों के लिए खूबसूरत बन गया था। आए दिन पाकिस्तानी घुसपैटियों के द्वारा आतंक फैलाकर स्थानीय जनता का शोषण भी किया जा रहा था। विकास कार्य ठप हो गए थे। पर्यटकों का प्रवाह रुक गया था, लेकिन जबसे वर्तमान सरकार द्वारा इस धारा को समाप्त किया गया है, जम्मू-कश्मीर आम देश के राज्यों की श्रेणी में आ गया है। इस धारा के समाप्त किए जाने के पश्चात कश्मीर का नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। संपूर्ण घाटी क्षेत्र में सड़कों-पुलों का निर्माण हो रहा है।

अनेक होटल समूह कश्मीर में होटल व्यवसाय के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को रोजगार दे रहे हैं तो पर्यटकों को आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। कानूनी संबंधित प्रकरणों ने इन चार वर्षों के दौरान 97 प्रतिशत कमी आई है तो आतंकी घटनाओं में भी 70 प्रतिशत कमी आई है। कश्मीर में स्वास्थ्य संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव पहली बार संपन्न हुए हैं और इसके माध्यम से श्री टियर पंचायत प्रणाली के द्वारा 37,274 स्थानीय निकाय प्रतिनिधि

कश्मीर के स्थानीय प्रशासन का प्रबंधन भी कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कश्मीर में बहाल हुई है। अभी हाल ही में जी-20 देशों का सम्मेलन श्रीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है।

विश्व समुदाय को भी विश्वास हो गया है कि कश्मीर में हालात सामान्य है। विदेशी प्रतिनिधियों ने बिना बाधक 'शिकारा' में झील की सैर भी की है। श्रीनगर में राज्य का पहला मल्टीप्लेक्स परिचालित हो रहा है। वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक कश्मीर पहुंचे हैं तथा प्रदेश में 73 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है। दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस-वे का परिचालन संभव हुआ है। देश की सबसे लंबी हाईवे टनल चेनानी माशारी का निर्माण हुआ है तथा जम्मू-श्रीनगर को स्मार्टसिटी के विकास का लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य में चार वर्षों के दौरान 19095 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास संभव हुआ है। इस क्षेत्र को पहली बार राष्ट्रीय स्तर के प्रबंध संस्थान AIIMS और आईआईटी उपलब्ध हुए हैं तो राज्य में 244 पुलों का भी निर्माण हुआ है तथा 39 सुरंगों के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। संपूर्ण जम्मू-कश्मीर आज व्यापक बदलाव को स्थिति में देखा जा सकता है। आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत तक कमी आई है। गत तीन वर्षों के दौरान 30000 युवाओं को सरकारी सेवा का लाभ मिला है। व्यापक स्तर पर व्यावसायिक निवेश कश्मीर को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण सुविधा युक्त चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है। अब नागरिकों को उपचार के लिए दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना होगा। मिली ट्रस्ट के सहयोग से मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। केन्द्र सरकार ने कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने

का निर्णय लिया है। संयुक्त अरब अमीरात की महत्वपूर्ण निर्माण कंपनी एम्मार समूह ने श्रीनगर में व्यावसायिक मॉल के निर्माण की शुरुआत की है। तीन अन्य कंपनियां भी इसी क्षेत्र में अपनी इच्छा प्रदर्शित कर चुकी हैं। श्रीनगर को रेलमार्ग से जोड़ा जा रहा है। 33 वर्ष पश्चात पहली बार घाटी में शांति के साथ मोहम्मद का जुलूस निकला है। अब हुरियत के आदेशों की नागरिक अनुसूची कर रहे हैं। दशकों पश्चात सिनेमाघरों में नागरिक फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। गत चार वर्षों के दौरान 500 से अधिक फिल्मों की कश्मीर में शूटिंग संभव हुई है। इस वर्ष जुलाई में ही घाटी में 1.28 करोड़ पर्यटकों का आगमन हो चुका है। वर्ष 2022 में ही 57 विदेशी सहित कुल 187 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि चालू वर्ष के दौरान जुलाई तक 35 आतंकी मारे गए हैं। संपूर्ण घाटी क्षेत्र में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और आम आदमी आज सुरक्षित महसूस करने लगा है। संपूर्ण आतंकी नेटवर्क ही टूट गया है। पत्थरबाजी की घटनाओं पर पूरी तरह विराम लग गया है। घाटी में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। रोजगार के साधनों का बड़े पैमाने पर सृजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में अब राजनेताओं का हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।

राजनैतिक दलों ने जिनमें पीडीपी भी शामिल है, धारा 370 हटाने का विरोध किया था और आज भी प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन बदले हालात में उन्हें कश्मीर की जनता का साथ मिलने वाला नहीं है। नेशनल कॉन्ग्रेस व पीडीपी राजनैतिक स्तर पर अलग-थलग पड़ने की दिशा में लगते हैं। आज संपूर्ण कश्मीर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। भय का वातावरण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सभी क्षेत्रों में कश्मीर विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

उचित साक्ष्य के अभाव में पीड़िता की मृत्यु के संदर्भ में सास-ससुर की गिरफ्तारी का आदेश अनुचित

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवीन सिन्हा व न्यायाधीश सुभाष आर रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष पेनल कोड 1860 की धारा 498ए के अंतर्गत पीड़िता पत्नी के विरुद्ध सास व ससुर के दुर्व्यवहार को लेकर विरोध दर्ज किया था, लेकिन अपीलेंट ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया था तथा इन्हें सजा दो न्यायालय के ठोस अध्ययन के पश्चात सुनाई गई है। न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों को सुनने के पश्चात कहा कि उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है तथा कहा कि अपीलेंट के विरुद्ध आरोप सामान्य स्तर के हैं।

ट्रायल न्यायालय ने कहा है कि यह दोनों हालांकि मकान के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन इनका व्यवहार पीड़िता के साथ अत्याचार का रहा है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलेंट पुत्र के विरुद्ध की गई शिकायत को उन्होंने नजरअंदाज करने का कार्य किया है, उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि आम दंपति के निरस्त किया जाना चाहिए। मृतका का पति पहले ही पुलिस की हिरासत में है, जिसको धारा 304बी तथा 498ए आईपीसी के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।

सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत तलाक याचिका को स्थानांतरित करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.वी. नागरथना के समक्ष सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 25 के अंतर्गत एक तलाक याचिका रश्मि रोहन शेट्टी नामक रोहन रघुनाथ शेट्टी संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। यह एक ट्रांसफर याचिका है जो पत्नी के द्वारा दायर की गई है, जिसे अपनी याचिका में प्रकरण के स्थानांतरण की मांग की गई है। उसके पति के द्वारा एक याचिका तलाक के संदर्भ में पारिवारिक न्यायालय टाणे में दायर की गई थी, लेकिन पत्नी ने इसको दक्षिण कर्नाटक के मंगलौर स्थित न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की मांग अपनी अपील के माध्यम से की है। न्यायालय ने अपीलेंट पत्नी के साथ-साथ प्रतिवादी पति के अधिवक्ता के विचारों को इस संदर्भ में सुना। अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि अपीलेंट वर्तमान मंगलौर में रह रही है। अतः इस प्रकरण को मंगलौर स्थित न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने इस संदर्भ में कोई एतराज व्यक्त नहीं किया है। अपीलेंट ने सुनवाई के दौरान बार-बार महाराष्ट्र टाणे के न्यायालय में उपस्थित होने में कठिनाई का जिक्र किया तथा कहा कि टाणे व मंगलौर के बीच बहुत अधिक दूरी भी है तथा अपीलेंट अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से रखना चाहती है और इसके लिए इस याचिका को स्वीकार करके इसे मंगलौर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भ में याचिका को स्वीकार करते हुए याचिका को मंगलौर स्थित पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों पक्ष इस प्रकरण के उचित निराकरण व हल के लिए मंगलौर स्थित न्यायालय में परस्पर पूरा सहयोग करेंगे।

हेल्थ • सोसायटी • एज्युकेशन

समय की मांग

भैया राखी पर्व पर, देना भेंट विशेष।
गो को घर में समझाना, हरिद्वार-त्रिविकेश।।
साभार :- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

चार चीजों को सदा करना चाहिए - दान, दया, सस्त्रंग व संतोष। - अज्ञान

नफा नुकसान

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन प्र. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेंद्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन प्र. लिमिटेड, एसपीएन-4 (ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी
(पोआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011152
0141-3518087
ई-मेल: info@nafanuksan.com

डिस्कलेमर
नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी जानत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारीयों से मेल नहीं खाता हो व असंग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैंसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसे अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावें के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, ग्राहकों व संपादक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का साक्ष्यकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

राजस्थान में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ

गहलोत बोले : हमने वादा निभाया, अगले फेज में बांटेंगे 80 लाख फोन

जयपुर/का.सं.। प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिरला सभागार से की। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन करते हुए गहलोत ने कहा कि आज एक बजट घोषणा पूरी होने जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हम केवल वादा नहीं करते, निभाते भी हैं। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, इस कारण मोबाइल नहीं बन रहे हैं। इसलिए अलग-अलग फेज में मोबाइल दिए जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा है। अगले फेज में 80 लाख मोबाइल दिए जाएंगे।

ये रेवडियां नहीं हैं: गहलोत ने कहा यह स्मार्टफोन महिलाओं को मजबूत, सशक्त बनाएगा और यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। मोदी और बीजेपी के लोग

कहते हैं कि रेवडियां बांट रहे हैं। ये रेवडियां नहीं हैं, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान देश के टॉप राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए, इसके लिए हम सबसे सुझाव लेंगे। साल 2030 में कौन

मुख्यमंत्री रहेगा, यह अलग बात है लेकिन हमें प्रदेश के अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी : लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाना होगा। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उससे मौके पर फार्म-60 भरवाया जाएगा।

शर्मा ईस्ट इण्डिया हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय : जयपुर हॉस्पिटल, एस.एन.एस. स्टेशन के पास, लालकोटी, टोक रोड, जयपुर-302015 (राज.) फोन: 0141-2742557, 2742266 • फैक्स: 0141-2742472 • CIN: L85110RJ1989PLC005206 ई-मेल: sharmaeastindia@gmail.com • वेबसाइट: www.jajpurhospital.co.in				
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार				
(रुपये लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)				
S. No.	Particulars	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022
		गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	550.99	513.92	509.40
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)			2078.98
3	(कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	20.60	21.64	17.99
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	20.60	21.64	17.99
5	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	9.85	37.41	17.99
6	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभकारी लाभ/ हानि और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	9.85	51.34	17.99
7	समत अंश पूर्ण आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) .	328.38	328.38	328.38
8	1 मूल	0.30	1.56	0.55
	2 तल	0.30	1.56	0.55

टिप्पणी : (1) उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.08.2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की समिति समीक्षा की, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 को विनियम 33 के तहत आवश्यक है। (2) उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 को विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jajpurhospital.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। (3) पिछली तिमाही के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित, पुनः समूहीकृत एवं पुनः काट दिया गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार ह./-
जैलेंद्र कुमार शर्मा (प्रबंध निदेशक)
DIN: 00432070

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10 अगस्त, 2023

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णय को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें। -संपादक

कृष्णा फोस्फेम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-20, वेसमेंट, आर.सी.ट्याग साहें कॉलोनी,मैलावाड - 311001, राजस्थान
सीआईएन - L24124RJ2004PLC019288 | फोन नं. -01482-237104, फैक्स नं. 01482-239638
ई-मेल : secretarial@krishnaphoschem.com वेबसाइट : www.krishnaphoschem.com

30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

(Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (रु. लाखों में राशि)

S. No.	Particulars	समाप्त तिमाही		समाप्त
		30.06.2023	31.03.2023	वार्षिक वर्ष
		गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से आय	16,632.35	14,645.18	6,718.33
2.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर एवं असाधारण वस्तुओं से पहले)	1,776.99	1,420.89	730.89
3.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले एवं असाधारण वस्तुओं के बाद)	1,776.99	1,420.89	730.89
4.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर एवं असाधारण वस्तुओं के बाद)	1,188.11	623.00	609.82
5.	कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	1,188.11	616.65	609.82
6.	समत अंश पूर्ण आय	3,091.38	3,091.38	2,963.88
7.	अतिरिक्त अंश पूर्ण आय			3,091.38
8.	आय प्रति शेयर (रु.10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)			
		1 मूल	2.02	2.06
		2 तल	3.84	2.04

टिप्पणी :

- उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई और तथ्यतः निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई।
- उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (IND AS) के अनुसार तैयार किये गए हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें।
- उपरोक्त वित्तीय परिणाम SEBI (विनियमन 33 (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत 30 जून 2023 को समाप्त हुए तिमाही के विस्तृत प्रारूपों का सार है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.Krishnaphoschem.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षरित /-
(सूचीकृत) (रु. 10/- प्रति का)
पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
दिनांक: 10-08-2023

COMPUCOM
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।

कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।
कम्प्यूटर्स का सर्वोत्कृष्ट विकल्प।